

PATLIPUTRA COLLEGE OF NURSING

Approved by Health Department (Govt. of Bihar)
Affiliated by I.N.C. (Govt. of India)
Khemnichak (Near P.C.S), New Bypass Road, Patna Ph. No.: 9798206065(O), 9534390352, 9334767990, 9304637349

ADN	IISSIO	NF	ORN
-----	--------	----	-----

or office use only	V				
Me and the control of the control					
				The state of the s	ffix recent ssport Size
. Rejected				The state of the s	otograph
. Under Considera	ation				
i. Trade					
6. Roll No					
7. Hostel					
Applicantle No.	any conduct, rules or code	va shored avancems of	E i elunen 40	MAKE EPINEPE AN	
. Applicant's Na (IN BLOCK L					
(III BLOCK I	ETTERS)				
. Father's/Guar	dian's Name :				
3. Occupation					
d. Occupation Mothers' Nam	e :	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
3. Occupation 4. Mothers' Nam 5. Relation with	the Guardian's :				
3. Occupation 4. Mothers' Nam 5. Relation with	the Guardian's :				
6. Occupation 6. Mothers' Nam 7. Permanent Ac	the Guardian's :	AH LOMA HRHITARA	Mob.No	5330	
3. Occupation 4. Mothers' Nam 5. Relation with 6. Present Addre 7. Permanent Addre	the Guardian's :	E FATHER A MOTHE	Mob.No	10344	MANAGE
3. Occupation 4. Mothers' Nam 5. Relation with 6. Present Addre 7. Permanent Addre 8. Date of Birth	the Guardian's :	ALL FANA ANABATA A	Mob.No	road ear (phe selficus	
3. Occupation 4. Mothers' Nam 5. Relation with 6. Present Addre 7. Permanent Addressed name and other	the Guardian's :	E FATHER A MOTHE	Mob.No	10344	
3. Occupation 4. Mothers' Nam 5. Relation with 6. Present Addre 7. Permanent Addre 8. Date of Birth 9. Academic Rec	the Guardian's :	ALL FANA ANABATA A	Mob.No	road ear (phe selficus	
Mothers' Nam Relation with Present Addre	the Guardian's :	Month sed Attested / Certificate	Mob.No Mob.No You here with)	EDAMIL Par time retrious	M.V.E.M. See
6. Occupation 6. Mothers' Nam 6. Relation with 6. Present Addre 7. Permanent Addre 8. Date of Birth 9. Academic Rec	the Guardian's :	Month sed Attested / Certificate Board/ University	Mob.No Mob.No You here with)	EDAMIL Par time retrious	MANAGE STATES
6. Occupation 6. Mothers' Nam 6. Relation with 6. Present Addre 7. Permanent Addre 8. Date of Birth 9. Academic Rec	the Guardian's :	Month sed Attested / Certificate Board/ University	Mob.No Mob.No You here with)	EDAMIL Par time retrious	MANAGE STATES
Mothers' Nam Relation with Present Addre Permanent Addre Date of Birth Academic Rec	the Guardian's :	Month sed Attested / Certificate Board/ University	Mob.No Mob.No You here with)	EDAMIL Par time retrious	MANAGE STATES



Approved by Health Department (Govt. of Bihar) Affiliated by I.N.C. (Govt. of India) Khemnichak (Near P.C.S), New Bypass Road, Fatna Ph. No.: 9798206065(O), 9534390352, 9334767990, 9304637349

No.	457		Date :
Name :		S/o	
Session	,	Trade	Roll No

1. Description :		
2. Employed :		
3. Name & Address of two	responsible persons of your localit	ty to whom you are known.
Name	Occupation	Address
A		
cantianusic I		11.
	DECLARATION	
qualification/ Experience and de	gree that admitted to the validity of r	ed with the application form which regards to my Admission shall depend upon the accuracy
qualification/ Experience and de such particulars as required by y Institutes may prescribe time to t	gree that admitted to the validity of our Institute. I also undertake to abid	
qualification/ Experience and de such particulars as required by y	gree that admitted to the validity of our Institute. I also undertake to abid	my Admission shall depend upon the accuracy le by any conduct, rules or, code of ethics that
qualification/ Experience and de such particulars as required by y Institutes may prescribe time to to ate:	gree that admitted to the validity of our Institute. I also undertake to abid	my Admission shall depend upon the accuracy le by any conduct, rules or, code of ethics that Signature of the Applica
qualification/ Experience and de such particulars as required by y institutes may prescribe time to to Date:	gree that admitted to the validity of our Institute. I also undertake to abid ime. LARATION OF FATHER / MO	my Admission shall depend upon the accuracy le by any conduct, rules or, code of ethics that Signature of the Applica
qualification/ Experience and de such particulars as required by y institutes may prescribe time to to date: Date: DEC	gree that admitted to the validity of our Institute. I also undertake to abid ime. LARATION OF FATHER / MO	Signature of the Applica THER / GUARDIAN who has given to
qualification/ Experience and de such particulars as required by y institutes may prescribe time to to declare Mrs./ Ms.	gree that admitted to the validity of our Institute. I also undertake to abid ime. LARATION OF FATHER / MO esire that she may enrolle as studen	Signature of the Applica THER / GUARDIAN who has given to
qualification/ Experience and de such particulars as required by y institutes may prescribe time to to declare Mrs./ Ms. DEC	gree that admitted to the validity of our Institute. I also undertake to abid ime. LARATION OF FATHER / MO esire that she may enrolle as studen	Signature of the Applica THER / GUARDIAN who has given it of your Institute.
qualification/ Experience and de such particulars as required by y institutes may prescribe time to the Date: Date: DEC declare Mrs./ Ms. particular is my daughter and I do here agree that all dues in responsement towards the same.	gree that admitted to the validity of our Institute. I also undertake to abid ime. LARATION OF FATHER / MO esire that she may enrolle as studen ect of the Tuition Fee/ admission fee	Signature of the Applica THER / GUARDIAN who has given to f your Institute. etc. will be paid by me and I Guarantee the
qualification/ Experience and de such particulars as required by y institutes may prescribe time to the Date: Date: DEC declare Mrs./ Ms. particular is my daughter and I do here agree that all dues in responsement towards the same.	gree that admitted to the validity of our Institute. I also undertake to abid ime. LARATION OF FATHER / MO esire that she may enrolle as studen	Signature of the Applica THER / GUARDIAN who has given to f your Institute. etc. will be paid by me and I Guarantee the



PATLIPUTRA COLLEGE OF NURSING

Approved by Health Department (Govt. of Bihar)
Affiliated by I.N.C. (Govt. of India)
Khemnichak (Near P.C.S), New Bypass Road, Patna
Ph. No.- 9798206065, 9534390352

Ref	Date
1001	

छात्र—छात्राओं के लिए निर्देश

- 1. प्रत्येक तिमाही शुल्क 30,000/- को पाँच तारीख तक जमा करना हैं। अगर जमा नहीं करते हैं तो प्रतिमाह 1,000/- विलम्ब शुल्क लिया जाएगा। अगर लगातार दो त्रिमाही शुल्क जमा नहीं करते हैं तो आपका नामांकन रद्द कर दी जाएगी, जिसके बाद अगर नामांकन होता है तो नामांकन शुल्क 11,000/- एवं विलम्ब शुल्क के साथ जमा करना होगा।
- 2. बी. एस. सी. नर्सिंग स्कूल के द्वारा निर्धारित पोशाक में छात्र-छात्राओं की उपस्थिति मान्य होगी।
- 3. 80% उपस्थिति अनिवार्य है।
- 4. किसी भी तरह की अनुशासनहीनता करने पर स्कूल से निष्काषित कर दिया जायेगी।
- 5. बिना सूचना के वर्ग में लगातार अनुपस्थित रहने पर स्कूल से निष्काषित कर दिया जायेगा एवं नामांकन भी रद्द कर दी जाएगी।
- 6. जिन छात्राओं की उपिथाति 80% उपिथाति रहेगी तो उसे संस्थान की तरफ से उपहार स्वरूप 5,000/- दिया जाएगा। साथ नियमित रूप से शुल्क जमा करने वाले छात्राओं को भी 5,000/- उपहार स्वरूप दिया जाएगा।
- 7. मैट्रिक एवं 10+2 का अंक-पत्र एवं सभी प्रमाण-पत्र और नामांकन पत्र में दी गई सूचनाएँ किसी भी समय या जाली पाए गए तो इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेवार रहूँगी, स्कूल की जिम्मेवारी नहीं होगी। साथ ही नामांकन रद्द कर दी जाएगी।
- 8. बी. एस. सी. नर्सिंग में नामांकन के बाद अगर आवेदक अपना नामांकन रह करवाना चाहती है तो कोई भी शुल्क वापस नहीं होगा।

उपरोक्त	सभी	निर्देश	को	पढ़कर	并	
सभी नियम	का पा	लन करें	हँगी I			

अभिभावक का हस्ताक्षर

आवेदक का हस्ताक्षर